



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

25 आश्विन 1941 (श0)  
(सं० पटना 1163) पटना, वृहस्पतिवार, 17 अक्टूबर 2019

---

परिवहन विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर 2019

सं० 02/CMT-16/2014/परि०-7673—इस विभाग की अधिसूचना संख्या-परि० (4) 1351, दिनांक 06.06.1990 द्वारा कतिपय निदेश निर्गत किये गये हैं एवं इसी क्रम में निर्गत पत्रांक-4049, दिनांक 01.03.1991 के अनुसार सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग वर्णाक्षर निर्गत किये जाने का निदेश के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत है।

उपरोक्त द्वारा मालवाहकों एवं बड़ी सवारी गाड़ियों को “G” सिरीज में ही निबंधित किया जाने का निदेश निर्गत है। इसी प्रकार 06 से अधिक बैठान क्षमता वाली सार्वजनिक वाहन एवं निजी वाहन को “P” सिरीज में निबंधित करने का निदेश निर्गत है एवं अन्य निजी एवं दो पहिया वाहनों के लिए अन्य वर्णाक्षरों से सिरीज आवंटित किये जाने का निदेश है।

इस विभाग के अधिसूचना संख्या-6581, दिनांक 06.09.2019 द्वारा Fancy Number एवं मनपसंद नंबरों को e-Auction के जरिये निलाम किये जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि पारदर्शी तरिके से इन नम्बरों का आवंटन किया जा सके। उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत गैर-परिवहन एवं परिवहन वाहनों के लिए अलग-अलग आधार शुल्क निर्धारित है। उपरोक्त के समीक्षा के क्रम में “P” सिरीज में गैर-परिवहन एवं परिवहन वाहनों दोनों का निबंधन होने के कारण इसके क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है।

उपरोक्त पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि “P” सिरीज सिर्फ परिवहन वाहनों को ही आवंटित किया जाय। छ: एवं उससे अधिक बैठान क्षमता वाले गैर-परिवहन वाहनों को भी अन्य गैर-परिवहन वाहनों हेतु आवंटित अन्य वर्णाक्षरों के सिरीज से ही निबंधन किया जायेगा।

उपरोक्त के आलोक में परिवहन वाहनों का ही निबंधन “P” सिरीज में किया जाय।

आदेश से,  
संजय कुमार अग्रवाल,  
सरकार के सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1163-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>